



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1944 (श०)
(सं० पटना 43) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जनवरी 2023

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रथम अधिसूचना
7 जनवरी 2023

सं० 5पुरा/न्या०-05/2018-01—“बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976” की धारा-(3) की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संलग्न अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/स्मारक “गिरजा घर (इम्मनुएल चर्च)” को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई आपत्ति हो तो इसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 2 (दो) माह के अन्दर संबंधित प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष के क्षेत्र के अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द,
अपर सचिव-सह-निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक / पुरातात्विक स्थल / अवशेष की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल/स्मारक का नाम	अवशेष	एम0एस0 खाता	एम0एस0 खेसरा	रकबा	चौहद्दी
					एकड़./डी.	
1	2	3	4	5	6	7
1	गिरजा घर	पक्का मकान एवं खाली परती	1175	1354 क से ड तक	1 एकड़ 38 डिस्मील 376 कड़ी	उत्तर में खेसरा नं0— 1355, दक्षिण में पूर्णियाँ सहरसा पक्की सड़क, पूरब में श्रीनगर रोड, पश्चिम में खेसरा नं0—1353

	जमीन की किस्म	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं0	जिला	अभ्युक्ति
	8	9	10	11	12	13	14
	सहन	मधुबनी	पूर्णियाँ पूर्व	के0 हाट	123/1	पूर्णियाँ	खासमहाल बिहार सरकार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द,
अपर सचिव-सह-निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 43-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>